



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2009, शनिवार/कार्तिक 10—कार्तिक 16, 1931
No. 16] NEW DELHI, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2009, SATURDAY/KARTIKA 10—KARTIKA 16, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुश्तक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2009

का.नि.आ. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रयोगशाला सहायक (कंप्यूटर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रयोगशाला सहायक (कंप्यूटर) समूह 'ग' राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला सहायक (कंप्यूटर), राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल	5 (2009)	रक्षा सेवा सिविलियन, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय अनौद्योगिक	वेतन बैंड-I 5200- 20200 रु. ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । टिप्पण 1 : भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2 : भारत सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण 3 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ, विज्ञान में बैचलर डिग्री । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर उपयोजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा । वांछनीय :- कंप्यूटर हार्डवेयर और सहबद्ध उपसाधनों के संभालने तथा अनुरक्षण का अनुभव ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा। आमेलन : ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में यथावर्णित शैक्षिक अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता
यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
1. प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल	— अध्यक्ष
2. प्रशासनिक अधिकारी	— सदस्य
3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय	— सदस्य

[फा. सं. 58736/एलए(सी) आरआर/जीएस/एमटी-15/370/डी (एपीपीटीटीएस)/09]

एस. एस. एस. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th October, 2009

S.R.O. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant (Computer) in Rashtriya Military School in the Ministry of Defence namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Laboratory Assistant (Computer) Group 'C' Rashtriya Military School Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, and their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualification etc.—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for the reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service Pension Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laboratory Assistant (Computer) in Rashtriya Military School	5* (2009)	Civilian in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial Non-Industrial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years. Note 1 : Relaxation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Castes and Ex-servicemen candidates as per Government of India orders. Note 2 : Relaxation for the Government Servants upto 35 years as per the Government of India orders. Note 3 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Bachelor of Science degree with Mathematics, Physics and Chemistry from a recognised University. (ii) One year Post Graduate Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institution. Desirable : Experience in handling and maintenance of Computer Hardware and allied accessories.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment failing which by absorption. Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services with educational qualifications as mentioned in column (8) in the Schedule.	Not applicable
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— (1) Principal of Rashtriya Military School — Chairman (2) Administrative Officer — Member (3) Under Secretary, Ministry of Defence — Member	Not applicable

[F. No. PC to MF 58736/LA(C)RR/GS/MT-15/370/D(Appts)/09]

S.S.S. SARMA, Under Secy.

DIRECTORATE OF CIVILIAN PERSONNEL**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 20th October, 2009

S.R.O. 30.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Defence Number S.R.O. 66 dated the 13th November, 2007 published in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated the 25th November-1st December, 2007 at page 303, in the Schedule to Ministry of Defence (Navy) (Group 'A' Gazetted posts, Professorial Cadre) Recruitment Rules, 2007 at Serial Number 2 Assistant Professor, under column 8, in line 5 of (ii) for the word "qualify", read "quality".

[F. No. CP (G)/1774/RR/806/D (A)/07]

S.S.S. SARMA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Number S.R.O. 66 dated 13th November, 2007.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th October, 2009

S.R.O. 31.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Defence Number S.R.O. 67 dated the 13th November, 2007 published in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated the 25th November-1st December, 2007 at page 308, in the Schedule to Ministry of Defence (Navy) (Group 'A' Gazetted posts, Lecturer) Recruitment Rules, 2007 at Serial Number 1 Lecturer, the word "(Combatised)" appearing under column 3 of Lecturer shall be deleted.

[F. No. CP (G)/1774/RR/806/D (A)/07]

S.S.S. SARMA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Number S.R.O. 67 dated 13th November, 2007.

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2009

का.नि.आ. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नौसेना समूह 'क' और 'ख' नौसेना (सिविलियन राजपत्रित भंडार अधिकारी पद) भर्ती नियम 2002 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय, नौसेना में सहायक नौसेना भंडार अधिकारी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी-I (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3859 98/05-2

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्र सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक नौसेना भंडार अधिकारी-1	68* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय वर्ग।	वेतन बैंड 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए यथा विहित।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)				(9)		(10)
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए यथा विहित।				नहीं		दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

(12)

पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

पचहत्तर प्रतिशत प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

विशेष चयन द्वारा भर्ती

इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के अधीन उपलब्ध बैंक लॉग रिक्तियाँ एक मुश्त. उपाय के रूप में इन नियमों के स्तंभ (7) और (8) में यथा उपदर्शित ऐसी आयु सीमा और अर्हताओं वाले उपयुक्त व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा विशेष चयन द्वारा भर्ती के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाएंगी।

प्रोन्नति : वेतन बैंड-2 + 4600 रु. के ग्रेड वेतन में ऐसा सहायक नौसेना भंडार अधिकारी-2 जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण-2 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की फिारिशों पर आधारित विस्तार किए गए तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव, प्रशासनिक विषय से संबंधित, रक्षा मंत्रालय — सदस्य
- (3) निदेशक सिविलियन कार्मिक, नौसेना मुख्यालय — सदस्य

समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (1) संयुक्त सचिव, प्रशासनिक विषय से संबंधित, रक्षा मंत्रालय — सदस्य
- (2) निदेशक सिविलियन कार्मिक, नौसेना मुख्यालय — सदस्य

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. सीपी(जी)/2603/एएनएसओ-1/आर आर/336/डी(ए) 09/रक्षा नियुक्तियाँ]

एस. एस. एस. शर्मा, अवर सचिव

385940105-3

New Delhi, the 30th October, 2009

S.R.O. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Navy Group 'A' and 'B' Navy (Civilian Gazetted Store Officers Posts) Recruitment Rules, 2002, in so far as it relates to the post of Assistant Naval Store Officer-I, except, as respects things done or omitted to be done before supersession, the President hereby makes the following rules to providing for the method of recruitment to the post of Assistant Naval Store Officer-I, in the Navy, in the Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Assistant Naval Store Officer-I (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of the posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection posts or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Naval Store Officer-I	68* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band— Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 5400	Selection post	Not applicable	As prescribed for for Combined Engineering Services Examination conducted by Union Public Service Commission
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees			Period of probation, if any
(8)			(9)			(10)
As prescribed for Combined Engineering Services Examination conducted by Union Public Service Commission			No			Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption Grade from which promotion/Deputation/Absorption to be made.

(11)

(12)

Twenty-five per cent by promotion,
Seventy-five per cent by Direct Recruitment through Combined Engineering Services Examination conducted by the Union Public Service Commission every year.

Recruitment by special selection : The backlog vacancies available under the seventy-five per cent direct recruitment through Combined Engineering Services Examination on the date of notification of these rules shall be filled by the Union Public Service Commission through recruitment by special selection by direct recruitment of suitable persons with such age limit and educational qualifications as indicated in columns (7) and (8) of these rules as one time measure.

Promotion :

Assistant Naval Officer Grade II in Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4600 with three years' regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note : 2 For the purpose of appointment on promotion basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the VI CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission — Chairman
2. Joint Secretary, Administratively concerned dealing with the subject, Ministry of Defence — Member
3. Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters — Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation of direct recruits consisting of :

1. Joint Secretary, Administratively concerned dealing with the subject, Ministry of Defence. — Chairman
3. Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters — Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. CP(G)/2603/ANSO-I/RR/336/D(A)/09]

S. S. S. SARMA, Under Secy.